



विषय- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत लघु शस्त्र निर्माणी में प्रशिक्षण-आवेदन प्राप्त करना।

लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत तीन सौ घण्टे की अवधि का "Field Technician-Computing and Peripherals" व "Emergency Medical Technician-Basic" ट्रेडों पर दो पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

पाठ्यक्रम के लिये जरूरी योग्यतायें

1. आवेदक भारतीय नागरिक हो।
2. आवेदक न्यूनतम 12वीं पास उत्तीर्ण हो।
3. आवेदक के पास आधार संख्या एवं सक्रिय बैंक खाता होना चाहिये।
4. आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्माणी में कार्यरत नहीं होना चाहिये।
5. इस पाठ्यक्रम हेतु कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी, सिर्फ 30 अभ्यर्थियों को इन्टर के प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर चुना जायेगा।

पाठ्यक्रम की विशेषतायें

1. इस पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त आवेदक उपरोक्त ट्रेडों में अपना स्टार्ट-अप शुरू कर सकते हैं।
2. पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त एनएसडीसी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

पाठ्यक्रम संबंधी सूचनायें

1. पाठ्यक्रम के दौरान कोई भत्ता देय नहीं होगा।
2. पाठ्यक्रम के अन्त में एनएसडीसी द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु केवल दो मौके दिये जायेगे। प्रथम मौके पर अनुत्तीर्ण होने पर आवेदक को दूसरे मौके के लिये फीस भरनी होगी। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 25.03.2020 तक लघु शस्त्र निर्माणी में अवश्य जमा करवा दें। लिफाफे के ऊपर "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" अवश्य लिखें।

-हस्ताक्षरित-
(एस.के.श्रीवास्तव)
कार्यप्रबंधक
कृते महाप्रबंधक

प्रारूप

संदर्भ:- लघु शस्त्र का विज्ञापन दिनांक- .03.2020

लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर में _____ ट्रेड के प्रशिक्षुता हेतु प्रार्थना पत्र।

सेवा में,

महाप्रबंधक

लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर।

विषय: प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत लघु शस्त्र निर्माणी में प्रशिक्षण।

मैं, एतद्वारा लघु शस्त्र निर्माणी मेंट्रेड में प्रशिक्षुता के लिये
आवेदन करता/करती हूँ :-

- 1- आवेदक का पूरा नाम
- 2- आवेदक के पिता का नाम
- 3- आवेदक की माता का नाम
- 4- आवेदक का पत्राचार हेतु पता
- 5- आवेदक की जन्मतिथि
- 6- आवेदक का वर्ग
- 7- ट्रेड जिसके लिये आवेदन किया गया है
- 8- इंटरमीडियेट में प्राप्त अंक व प्रतिशत
- 9- आधार कार्ड संख्या
- 10- बैंक खाता संख्या व शाखा
- 11- मोबाइल नम्बर
- 12- ई-मेल

किसी राजपत्रित अधिकारी
से अभिप्रमाणित अपनी
वर्तमान की स्पष्ट फोटो
चस्पा करें।

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दिये गये विवरण पूर्णतया सत्य हैं एवं किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

दिनांक:.....

हस्ताक्षर:.....

स्थान:.....

आवेदक का पूरा नाम:.....

संलग्न -1-इंटरमीडियेट की मार्कशीट की छायाप्रति

2-आधारकार्ड की छायाप्रति

3- दो पासपोर्ट साइज फोटो